

# **Technocraft Industries (India) Limited**

Regd. Office: Technocraft House, A-25, Road No. 03, MIDC Industrial Estate,
Andheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India
Tel: 022-4098 2222; Fax No. 4098 2200; CIN No. L28120MH1992PLC069252
E-mail: investor@technocraftgroup.com : website: www.technocraftgroup.com

September 14, 2024

To,

**National Stock Exchange of India Limited** 

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400051

Ref: Script Name: TIIL

Dear Sir/ Madam,

**BSE Limited** 

Listing Department
P.J. Towers, 1<sup>st</sup> Floor,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

Script Code: 532804

Sub: Post Buy-Back Public Announcement – Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Please find enclosed the copy of Newspaper Advertisement regarding Post Buy-Back Public Announcement dated September 13, 2024 for the Post Buy-Back of Equity shares of the Company, which is published today i.e. September 14, 2024 in the following newspapers:

- 1. Business Standard (English & Hindi) All India Edition
- 2. Mumbai Lakshadeep (Marathi) Mumbai Edition

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours Faithfully

For Technocraft Industries (India) Limited

Neeraj Rai Company Secretary

Encl: as above

## एनएसई में को-लोकेशन का मामला

# बाजार नियामक ने मामला निपटाया

•जार नियामक सेबी ने को-जार ।नयामक सुना न का लोकेशन मामले में नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और उसके पर्व आला अधिकारियों चित्रा रामकष्ण, रवि नारायण, आनंद सुब्रमण्यन और चार अन्य के खिलाफ आरोप हटा दिए। नियामक ने कहा कि एनएसई के को-लोकेशन में कुछ निश्चित खामियां थीं, लेकिन स्टॉक ब्रोकर ओपीजी सिक्योरिटीज के साथ मिलीभगत या सांठगांठ के कोई सबूत नहीं मिले। इस ब्रोकर को एक्सचेंज के दूसरे सर्वर तक अनुचित पहुंच मिली हुई थी।

रता हुइ जा। सेबी का ताजा आदेश पिछले साल प्रतिभति अपील पंचाट यानी सैट की तरफ से जारी निर्देशों के बाद आया है। इस मामले में सेबी के अप्रैल 2019 के आदेश को रद करते हुए पंचाट ने बाजार नियामक को चार महीने के भीतर इस मामले पर फिर से निर्णय करने का निर्देश दिया था। सेबी को बाद में इस समयसीमा में विस्तार मिल गया था। सैट ने सेबी से कहा था कि वह अवैध कमाई की रकम और मिलीभगत के आरोप पर दोबारा

नियामक के ताजा आदेश से पूंजी बाजार तंत्र में सबसे ज्यादा चर्चित मामलों में से एक तत्र में सबसे ज्यादा चाचत मामली में से एक पर पर्दा गिर जाएगा। इस मामले ने देश के सबसे बड़े एक्सचेंज के पूर्व प्रमुखों की छवि को खराब कर दिया था और आईपीओ लाने की उसकी योजना अटक गई थी।



## सेबी का आदेश

- नियामक ने कहा कि एनएसई के को-लोकेशन में कुछ निश्चित खामियां थीं, लेकिन स्टॉक ब्रोकर ओपीजी सिक्योरिटीज के साथ मिलीभगत या साठगाठ के कोई सबूत नहीं मिले
- सेबी ने को-लोकेशन मामले में – .... नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और उसके पूर्व आला अधिकारियों चित्रा रामकृष्ण, रवि नारायण, आनंद सुब्रमण्यन और चार अन्य के खलाफ आरोप हटा दिए
- नियामक ने ओपीजी सिक्योरिटीज को 85 करोड़ रुपये की अवैध कमाई वापस करने का निर्देश दिया है

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश वार्ष्णेय ने 83 पृष्ठ के आदेश में कहा कि इस छह महीने का भी प्रतिबंध लगाया है जो उस पर अप्रैल 2019 के आदेश के तहत लगाई मामले में अहम सबूतों के अभाव में संभावना की प्रमुखता की जांच ओपीजी और उसके निदेशकों के साथ मिलीभगत या सांठगांठ गई पांच साल की पाबंदी के अलावा होगा। गइ पाच साल का पाबचा के अलावा होगा। सेबी की दोबारा गणना की गई अवैध कमाई की रकम 15.57 करोड़ रुपये से ज्यादा है

जिसे सेबी ने 2019 के आदेश में ब्रोकरेज को जमा कराने का निर्देश किया था। नियामक ने पाया कि ब्रोकरेज ने एक्सचेंज के सेकंडरी सर्वर तक पहुंच का बेजा फायदा उठाया। नियामक ने पाया कि एनएसई के पास को-

तय नीति नहीं है और वह सेकंडरी सर्वर के इस्तेमाल की निगरानी करने में नाकाम रहा। लेकिन ओपीजी के साथ सांठगांठ के कोई

जून 2010 से मार्च 2014 के बीच एनएँसई ने अपनी को-लोकेशन सुविधा में कथित टिक बाइ टिक (टीबीटी) आर्किटेक्चर तैनात किया था। टीबीटी ने डेटा फीड़ को क्रम से प्रसारित किया और उन टेडिंग फाड का क्रम स प्रसारत किया आर उन ट्राइंग सदस्यों को प्राथमिकता दी जो को-लोक्यन सर्वर से पहले जुड़े। इस सिस्टम का फावा उठाते हुए ओपीजी सिक्योरिटीज एक्सचेंज के सिस्टम तक बार-बार पहले पहुंची। यह मामला व्हिसलुब्लोअर केन फोंग ने उजागर किया था। उन्होंने सेबी को जनवरी अगस्त किया था। उन्होंने सबा को जनवरा, अगस्त और अक्टूबर 2015 में पत्र लिखकर शिकायत को थी। इसके बाद नियामक ने इस मामले में जांच की और फॉरॉसिक ऑडिट भी

कराया। जनवरी 2023 में सैट ने सेबी के अप्रैल 2019 के उस आदेश को दरकिनार कर दिया था जिसमें नियामक ने एक्सचेंज को 625 करोड़ रुपये की अवैध कमाई को 2014 से 12 फीसदी सालाना ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया था। हालांकि पंचाट ने एनएसई से कहा था कि

ड्यू डिलिजेंस के अभाव में वह 100 करोड़ रुपये जमा कराए। एनएसई की तरफ से दी गई पहले की सूचना के मुताबिक सेबी ने संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद एक्सचेंज को 300 करोड़ रुपये लौटा दिए थे।

# गुणवत्ता और बढ़ोतरी वाले शेयरों में बढ़ रहा निवेश

इक्विटी बाजार में निवेश की प्राथमिकता में अहम इक्क्टिट बाजार मा निवश की प्राथमिकता । में अहम बदलाव हो रहा है। वृद्धि और गुलता की थीम मिश्र का फक्ट रही है और वैल्यू थीम पीछे छूट रही है। इस बदलाव की वजह गुणवता और ग्रोथ वाली कंपनी के भावों को लेक सफ्जता होने के साथ-साथ व्याज दरों के चक्र की दिशा उलटने की संभावना भी है।

पीजीआईएम इंडिया म्युन्तुअल फंड के विश्लेषण से पता चलता है कि एनएसई 500 सूचकांक में गुणवत्ता और ग्रोथ शेयरों ने 1 जून से 13 फीसदी का रिटर्न दिया है। दूसरी तरफ गैर-गुणवत्ता व गैर-ग्रोथ शेयरों ने महज 4 फोसदी का रिटर्न दिया है। परिसंपत्ति प्रबंधक ग्रोथ की श्रेणी में उस कंपनी को रखते हैं जिसकी पांच वर्ष की औसत सालाना बिकी में बढोतरी उसकी ऐतिहासिक आसत सालाना ।बक्रा म बढ़ातरा उसका एतिशासक बिक्री वृद्धि से ज्यादा रही हो।गुणवत्ता वाली कंपनियां वे हैं जिनका इक्विटी पर रिटर्न उनके पांच साल के ऐतिहासिक इक्विटी रिटर्न से ज्यादा हो।

अप्रैल 2023 से मई 2024 के बीच जो शेयर गुणवत्ता और ग्रोथ शेयरों के पैमाने पर नहीं आते, उन्होंने 86 फीसदी का माध्य (मीडियन) रिटर्न दिया है। दूसरी तरफ गुणवत्ता और ग्रोथ वाली कंपनियों की मीडियन ग्रोथ 50 फीसदी रही है। देश के सबसे बड़े फंड हाउस एसबीआई य्युचुअल फंड ने भी रुझान में इस बदलाव को रेखांकित किया है। फंड हाउस ने गुणवत्ता वाले शेयरों को पारिभाषित करते हुए कहा है कि इनमें वे कंपनियां शामिल होती हैं जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा हो, कम कर्ज हो और आय में ज्यादा निरंतरता हो।

मनी मैनेजरों का कहना है कि ब्याज टर के चक का ग्रोथ और वैल्यू कंपनियों के प्रदर्शन पर असर होता है।

घटते ब्याज दर परिदृश्य में वृद्धि होती है प्रभावित और गुणवत्ता वाले शेयर ज्यादा सकारात्मक होते हैं : विशेषज्ञ

पीजीआईएम के मुख्य निवेश अधिकारी विनय पहाड़िया ने कहा कि उच्च वृद्धि की संभावना वाली कंपनियों पर ब्याज दरों का असर अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, जिसका मतलब यह हुआ कि उनके लिए अवधि ज्यादा होती है। ऐसे में गिरते ब्याज दर परिदृश्य में उच्च वृद्धि और उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों पर कम वृद्धि व कम गुणवत्ता वाली कंपनियों के मुकाबले ज्यादा सकारात्मक असर दिख सकता है।

मोटे तौर पर वैल्यू शेयर वे होते हैं जिनका पीई अनुपात कम होता है क्योंकि उनमें वृद्धि की संभावना कम होती है। ज्यादातर सार्वजनिक उपकमों के शेयर इसी श्रेणी में हा उचादातर सावजानक उपक्रमा के शवर इसी श्रणी में आते हैं। अल्फा ऑल्टरनेटिव्स में पार्टनर विनीत सचदेवा ने कहा कि पिछले तीन साल में वैल्यू ने गुणवत्ता को काफी ज्यादा पीछे छोड़ा है। ऐसा होना भारतीय बाजारों के लिए दुर्लभ बात है। हालांकि बढ़े हुए भावों, अपेक्षाकम कमजोर प्रदर्शन और वैश्विक आर्थिक अनिश्चित्तता के कारण गुणत्ता वाली शेयरों ने साल 2024 में जोरदार वापसी की है। हमें उम्मीद है कि यह रुख अल्पावधि से मध्यम अवधि में जारी रहेगा।

हाल के समय में कई फंडों ने अपने फंडों को विभिन्न निवेश तौर-तरीकों में विशाखित करने की कोशिश की है। इसका मकसद् यह सुनिश्चित करना है कि अगर उनकी पसंदीदा निवेश रणनीति कमजोर प्रदर्शन शुरू करती है तो उनके सभी फंडों को इससे न जूझना पड़े। उदाहरण के लिए ऐक्सिस और एचडीएफ्सी क्रमशः ग्रोथ व वैल्यू फंड हाउस के तौर पर जाने जाते थे लेकिन अब उन्होंने कुछ हद तक विशाखित किया है।

# नई पीढ़ी की कंपनियों पर म्युचुअल फंडों का बड़ा दांव

फंड मैनेजरों ने नई पीढ़ी की कंपनियों और अगस्त में सूचीबद्ध फमों पर बड़ा दांव लगाया है और ये शेयर पिछले महीने म्युचुअल फंडों की तरफ से की गई खरीद सूची में पांच अग्रणी शेयरों में शामिल रहे हैं। 9 अगस्त को शामिल रहे हैं। 9 अगस्त का सूचीबद्ध ओला इलेक्ट्रिक खरीदा जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा शेयर रहा और फंड मैनेजरों ने 2,740 करोड़ रुपये के शेयर हासिल किए। नई सूचीबद्ध अन्य कंपनी फर्स्टक्राई के 4 करोड़ शेयर म्युचुअल फंडों ने करीब 2,550 करोड़ रुपये के निवेश से खरीदे। इस सची में जोमैटो का स्थान चौथा रहा, जहां फंडों ने 2,500 करोड़ रुपये निवेश किया।

नुवामा ऑल्टरनेटिव ऐंड क्यांटिटेटिव रिसर्च के विश्लेषण अनुसार पीबी फिनटेक औ डेल्हिवरी 15 सबसे ज्यादा खरीदे

जार रोवरों में शामिल रहीं। म्युचुअल फंडों की अग्रणी खरीद सूची में ऐक्सिस बैंक सबसे ऊपर रहा। फंडों ने इस बैंक के 3,120 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। हालांकि एचडीएफसी बैंक से फंडों ने 8,370 करोड़ रुपये निकाले।हाल के वर्षों में प्रदर्शन के लिए जझ रहे इस शेयर पर कई फंड

पृष्ठ–1 का शेष

आईसीआईसीआई समूह से कर्मचारी शेयर विकल्प ( ईसॉप्स )

हासिल करने के आरोप पर बुच दंपती ने सफाई दी कि सेबी के

दिशानिर्देश इस बात की इजाजत देते

हैं कि उसके बोर्ड का कोई भी सदस्य या चेयरपर्सन ईसॉप्स रखे या उसे

भुनाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि माधवी ने साल 2017 में बाजार

नियामक को इसकी जानकारी दी थी, जब वे पहली बार पूर्णकालिक सदस्य के रूप में सेबी से जुड़ी थीं।

इसके बाद जब-जब इस तरह का

लेनदेन हुआ तो उन्होंने जानकारी दी। बुच दंपती ने अपने बयान में कहा

कि माधवी ने सेबी में आने के बाद

महिंद्रा समूह, डॉ रेड्डीज, अल्वारेज ऐंड मार्शल, सेम्बकॉर्प, विसु लीजिंग से जुड़ी किसी भी फाइल को

आईसीआईसीआई समूह

माधवी पुरी बुच ने कांग्रेस

के आरोपों को नकारा

## अगस्त में सबसे ज्यादा खरीदे व बेचे गए शेयर

म्थापित करने में विफल रही।

इसी मामले में 238 पृष्ठ के एक अन्य आदेश में नियामक ने ओपीजी सिक्योरिटीज

को 85 करोड़ रुपये की अवैध कमार्र वापम

करने का निर्देश दिया है। सेबी ने ओपीजी पर

सबसे ज्यादा खरीदे गए	निवेशित रकम	जोड़े गए शेयर
	(करोड़ रुपये)	(करोड़)
एक्सिस बैंक	3,120	2.66
ओला इलेक्ट्रिक	2,740	23.23
फर्स्टक्राई	2,550	3_99
जोमैटो	2,050	8.20
इंडिगो	2,040	0.42

सबसे ज्यादा बेचे गए	निकाली गई रकम	बेचे गए शेयर
	(करोड़ रुपये)	(करोड़)
एचडीएफसी बैंक	-8,370	5.12
भारती एयरटेल	-1,930	1.21
जायडस लाइफसाइसेज	<del>-</del> 1,520	1.35
इंडस टावर्स	<del>-</del> 1,260	2.75
कोल इंडिया	-1,230	2.35

आवंटन घटा रहे हैं जबकि लगातार छह महीने तक इसकी काफी खरीद की थी। क्वांट फंड काफी दांव लगाने के बाद अगस्त में इस शेयर से पूरी तरह बाहर निकल गया। ज्यादा बिकवाली वाले अन्य शेयरों में भारती एयरटेल जायंडस लाइफ इंडस टावर्स, कोल इंडिया और डिक्सन टेक्नोलॉजिज शामिल हैं।

फंड अदाणी एंटर, से परी तरह बाहर निकल गए जबकि उन्होंने अदाणी एनर्जी सॉल्युशंस में काफी खरीदारी की। अभिषेक कुमार

# म्युचुअल फंडों का सुनहरा सफर बरकरार

भारतीय म्यूचअल फंड उद्योग बढत की राह पर है। अगस्त 2024 एक और शानदार महीना रहा जब निवेशकों ने इक्विटी केंद्रित योजनाओं में 38,239 करोड़ रुपये का निवेश किया। यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा निवेश आंकड़ा है, साथ ही यह सुकारात्मक निवेश का लगातार 42वां महीना है।

सेक्टोरल और थीमेटिक फंड निवेशकों के पसंदीदा बने हुए हैं। किसी विशेष क्षेत्र या थीम

पर ध्यान केंद्रित करने वाले इन फंडों ने अकेले अगस्त में 18,117 करोड़ रुपये का निवेश हासिल किया। यह रकम माह के दौरान पेश एनएफओ में मिले निवेश का 73 फीसदी से रन्परकान नामप्त का 73 कारवास ज्यादा है। निवंशकों ने स्पष्ट तौर पर इन फंडों से मिलने वाले संभावित रिटर्न को लेकर उत्साह जताया, जो तकनीक से लेकर स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचा व अक्षय

कजा स सबाधत था मोतीलाल ओसवाल ने आंकड़ों के विश्लेषण के जरिये बताया है कि म्युचुअल फंडों ने अगस्त में तकनीक, हेल्थकेयर, रिटेल,

कंज्युमर, एनबीएफसी और टेलिकॉम में रुचि प्रदर्शित की। इससे मासिक आधार पर उनके भारांक में इजाफा हुआ। इसके उलट पूंजीगत सामान, निजी बैंक, यटिलिटीज, पीएसय बैंक ऑटोमोबाइल, केमिकल और इन्फ्रास्ट्रक्चर में मासिक आधार पर भार में नरमी देखने को मिली। अगस्त 2024 में म्युचुअल फंडों के लिए निजी बैंक (15.9 फीसदी) सबसे ज्यादा होल्डिंग वाला क्षेत्र रहा। इसके बाद तकनीक (9.2 फीसदी), ऑटोमोबाइल (8.6 फीसदी) और पूंजीगत सामान (7.6 फीसदी) का स्थान रहा। रिटेल, हेल्थकेयर, तकनीक,

## बढत की राह पर

- ■लगातार 42वें महीने अगस्त में निवेशकों ने इक्विटी फड़ों में डाली भारी
- फडों की अग्रणी 25 योजनाए अगस्त में चढ़कर बंद, ऐक्सिस ब्लूचिप फंड सबसे

बीमा और दूरसंचार क्षेत्र ने मासिक आधार पर वैल्यू में अधिकतम बढ़ोतरी दर्ज की।

## **Technocraft Industries (India) Limited**

Registered Office: Technocal House (Line), 1224 (20MH) 1928/L0695282
Registered Office: Technocal House, 425, Road No. OS, Micho Industrial Estate, Andhen (Est), Mumbai - 400030, Maharashita, India, Telephoner - 1922-4098 2222(23/6), Faz: +91-22-4098 2200; Email: Investories/benhocalignoup.com Woodste: www. belomoralignoup.com Contact Person: Mr. Nerraj Rai, Company Secretary & Compliance Officer Contact Person: Mr. Nerraj Rai, Company Secretary & Compliance Officer.

This post-buyback public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made in compliance with Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 as amended from time to mit ("SEBI Buyback Regulations,"). This Post Buyback Public Announcement and Announcem

Inless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein have the same meaning as scribed to them in the Public Announcement and the Letter of Offer.

- ascribed to them in the Public Announcement and the Letter of Office.

  1. THE BUYSAC.

  1.1. THE DIYSAC.

  1.1. THE DIYSAC.

  1.1. THE DIYSAC.

  1.1. The CONTROL THE

- The total number of Equity Shares bought back by the Company in the Buyback were 2,88,889 (five Lakiss Eighty-Eight Thousand Eight Hundred and Eighty-Rinn and Five Hundred Chip) per Equity Share.

  Thousand and Five Hundred Chip) per Equity Share.

  The total amountation the Buyback is 8HT (30,00,0500-(Indian Rupses One Hundred Thirty Cores and Five Hundred Only) excluding the transaction cost.
- 2.31. The Registran the Buyloack, Link Initime India Private Limited, considered a total of 1,17,806 valid bids for 21,02,311 Equity Shares in response to the Buyloack, which is approximately 7.28 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of valid bids reserved/considered by the Registran to the Buyloack are and whiching.

tile buybackars ass bus balow.					
Category of Shareholders	No. of Equity shares reserved in Buyback	No. of Valid Bids	Total Valid Equity Shares Validly Tendered	% Response	
Reserved category for Small Shareholders	43,334	1,16,243	1,99,099	4.60	
General category of other Eligible Shareholders	2,45,555	1,563	19,03,212	7.75	
Total	2,88,889	1,17,806	21,02,311	7.28	
2.4. All valid bids were conside	red for the purpose of Acc	eptance in acco	rdance with the SEBI Buybaci	k Regulations	

- CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

Particulars	Post Buyback		
Authorised Share Capital	Rs. 40,00,00,000 (4,00,00,000 Equity Shares)	Rs. 40,00,00,000 (4,00,00,000 Equity Share	
Issued Subscribed and Paid-up Equity Capital	Rs. 22,96,16,870 (2,29,61,687 Equity Shares)	Rs. 22,67,27,980 (2,26,72,798 Equity Share:	

Sr. No.	Name of the Shareholder	No. of Equity Shares accepted under Buyback	Equity Shares accepted as a % of of total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of total post Buyback Equity Share Capital of the Company#
1.	Sudarshankumar Saraf	69,800	24.16	0.31
2.	Shakuntala Saraf	53,107	18.38	0.23
3.	Sharadkumar Madhoprasad Saraf HUF	22,654	7.84	0.10
4.	Navneet Kumar Saraf	14,515	5.02	0.06
5.	Abakkus Emerging Opportunities Fund-1	13,359	4.62	0.06
6.	Nidhi Saraf	5,581	1.93	0.02
7.	Ashish Kumar Saraf	5,186	1.80	0.02
8.	Priyanka Ashish Saraf	5,136	1.78	0.02
9.	Sharadkumar Saraf	4,179	1.45	0.02
10.	Mahindra Manulife Manufacturing Fund	3,296	1.14	0.01
11.	HDFC Mutual Fund - HDFC Childrens Gift Fund	3,259	1.13	0.01

3.3. The shareholding pattern of the Company, prior to the Buyback (as of the Record Date, being August 27, 2024)

	Pre -Buyback		Post-Buyback#		
Particulars	Number of Shares	% to the existing Equity Share Capital	Number of Shares	% to the Post Buyback Equity Share Capital	
Promoters and persons acting in concert (Collectively "the Promoter & Promoter Group")	1,71,32,736	74.61	1,69,46,826	74.75	
Foreign Investors (Including Non- Resident Indians, FIIs)	7,42,011	3.23			
Financial Institutions/Banks & Mutual Funds promoted by Banks/ Institutions and Insurance Companies	4,37,938	1.91	57,25,972	25.25	
Others (Public, Public Bodies Corporate etc.)	46,49,002	20.25			
Total	2,29,61,687	100.00	2,26,72,798	100.00	

## 4. MANAGER TO THE BUYBACK

SYSTEMATIX GROUP

Systematix Corporate Services Limited
The Capital, A-Wing, 6th Floor, No. 693-665,
Plot No. C-70, 6-Blook, Bandra-Kunfa Complee
Bandra (East), Mumbal 400 651, Maharashtra
Telephone: +91-22-6764 8000
Faz: +91-22-6619 8029
Contact Person: Ms. Jain Sanghivi
Email: ecom@systematkgroup.in
Website: www.systematkgroup.in
SEBI Registration Number: Mild000004224
Validity Perior: Fermanent

DIRECTORS RESPONSIBILITY
In terms of Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts for exponsibility for the information condinct of this Post Buyback Public Amountement and continues that the Post Buyback Public Amountement and continues that the Post Buyback Public Amountement and some state of the acceptance of the Public Amountement and some state of the state of the

For and on behalf of the Board of Directors of Technocraft Industries (India) Limited

Sharad Kumar Sarat Chairman & Managir DIN: 00035843 Date: September 13, 2024 Place: Mumbai

आईसीआईसीआई समूह से कमाई के आरोपों पर बुच दंपती ने कहा, 'माधवी ने अपने ईसॉप्स कब भुनाए, उस समय बाजार मूल्य क्या था और कितने ईसॉप्स भुनाए गए, इसके हिसाब से हर साल अलग अलग फायदा होता है। अगर किसी

और रिटर्न में यह नजर भी आएगा।' बुच दंपती ने यह भी स्पष्ट किया ह जो कर्मचारी इस्तीफा देते हैं उनके पास ये ईसॉप्स तीन साल के लिए ही रह सकते हैं, लेकिन माधवी जैसे जो कर्मचारी वरिष्ठ पदों पर सेवानिवत्त होते हैं उनके पास इन्हें

भुनाने के लिए दस साल का समय

दंपती ने कहा कि माधवी ने आईसीआईसीआई बैंक से दो साल के लिए अवैतनिक अवकाश लिया था, जब वह सिंगापुर में एक प्राइवेट इक्विटी फर्म में किसी भूमिका में थीं। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से नियमों के अनुसार ही अवकाश लिया था और पीई फर्म के साथ उनका समझौता कानूनी और पारदर्शी था, जिसके बारे में दोनों

संस्थाओं को जानकारी दे दी गई थी। इस संयुक्त बयान में बुच दंपती ने इन आरोपों को खारिज किया कि उन्हें किसी तरह का लाभ पहुंचाने के बाद कंपनियों से रकम मिली और उन्होंने कहा कि इस तरह का सवाल उठाना उक्त कंपनियों की भी मानहानि के बराबर है।

इसके पहले कंपनियां कह चुकी हैं कि उन्होंने धवल बुच की सेवाएं इसलिए लीं क्योंकि उन्हें नेतृत्व का काफी अनुभव था और उन्होंने यूनिलीवर में आपूर्ति श्रृंखला में विशेषज्ञता हासिल की थी। साल में कोई ईसॉप्स नहीं भुनाया गया तो उससे कोई कमाई नहीं होगी

## अलग हुई सनोफी कंज्यूमर बाजार में सूचीबद्ध

सनोफी कंज्यूमर हेल्थकेयर इंडिया (एससीएचआईएल) का शेयर शुक्रवार को बाजारों में सूचीबद्धता के दौरान 4,703 रुपये पर बंद हुआ। यह कंपनी सनोफी इंडिया से अलग होकर सूचीबद्ध हुई है। अभी इस कंपनी का मूल्यांकन 10,831 करोड़ रुपये हैं। इस बीच, सनोफी इंडिया का

शेयर 0.92 फीसदी गिरकर 7,152 रुपये पर बंद हुआ। फ्रांस की बहुराष्ट्रीय दवा और स्वास्थ्य सेवा कंपनी सनोफी की स्थानीय इकाई का मूल्यांकन 16,471 करोड़ रुपये है।

कराड़ रुपय है। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सनोफी की वैश्विक रणनीति के हिसाब से एससीएचआईएल अब् स्वतंत्र रूप से परिचालन कर रही है और इसका ध्यान पूरी तरह से कंज्यूमर हेल्थकेयर सेक्टर पर है। एससीएचआईएल के पास एलर्जी. डाइजेस्टिव, वेलनेस, दर्द निवारक, मल्टी विटामिन और हर्बल डाइटरी सप्लीमेंट्स का पोर्टफोलियो है। एससीएचआईएल के प्रमुख ब्रांडों में एलेग्रा, डेपुरा, एविल और कॉम्बिपलेम शामिल है।

काम्बिप्लम शामिल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रेमंड और बजाज इलेक्ट्रिकल्स समेत कई भारतीय कंपनियों ने वैल्यू अनलॉक करने के लिए अपनी इकाइयां अलग

### जाहीर सचना

हुतमा (अझान मुख्या) याच्या नाव अशा राज्यसंशियाब इस्तातित कोल ताईश आणि दावा अन्य याग किंवा स्थिति केले आहे असे समजले जां सही/ — ऑड. लक्क्सी आर. ' पता: दुकान क्र.०२, लोकमान्य शॉर्थंग सेन्टर पोर्लास ठाणेज्वळ, माईंटर प., वि. ठाणे-०७ ठेकाण: ठाणे

हस्सा अच्छुआ हा भारताच या भागि दि. २७ मार्च २०१६ रोजी राजकोट भागि, त्याचे कायवेशीर वारस म्हणजे अपीना अक्बासभाई उर्फ सकीनाचेन अक त्यांच्या पर्तानी) आणि औ. अलीअस रासला उर्फ अलीअसगर अब्बासभाई

ोमती भारमल सकीना अब्बास ।भाई भारमल आणि ३) घी. अल्



## SHRIRMM HOUSING FINANCE

## श्रीराम हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड

मुख्य कार्यालयः लेव्हल-३, बोक्खाई टॉबर्स, इस्ट बिंग, सी-२ ब्लॉक, बांट्रे कुलों कॉम्प्लेबस, बांट्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१. दुर.:०२२-४२४९४००, ०२२-४४०६४००, वेबस्साईट: http:// www.shiriamhousing.in. नॉन्वणीकृत कवाय्लयः कार्यालयः कर,२२३, आण्या नायकन स्ट्रीट, चेनई-६००००१. शाखा कार्यालयः इसात ७, ७वा मजला, सॉलिटेअर कॉपॉट पर्वर्क, गुरु हर्गाविद सिंगजी मार्ग, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००९३.

परिशिष्ट-४-ए (नियम ८(६) ची तरतूद पहा) स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीकरिता विक्री सूचना

सिक्युरीटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फिनान्शियल ॲसेटस् ॲन्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट २००२ सहवाचिता सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रुल्स, २००२ च्या नियम ८(६) च्या तरतदीअन्वये स्थावर मालमत्त्रेचे विक्रीकरिता ई-लिलाव विक्री सचना.

. सर्वसामान्य जनतेस व विशेषतः कर्जदार आणि जामिनदारांना येथे सूचना देण्यात येत आहे की**, श्रीराम हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड**कडे तारण/अधिभारीन असलेल्या खाली नमद केलेल्या स्थावर मालमत्तेचा **सांकेतिक तावा श्रीराम हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड**च्या (एसएचएफएल) प्राधिकत अधिकाऱ्यांनी अस्तराना आता नमुद्र कलत्व ।त्यावर मात्मानाचा साकातक तावा आराम हाजासम् कावनान्म लिमान्डच्या (स्पर्वपण्डस्त) आपकृत आपकाव । पंतरेतला आहे आणि खाली नमुद्र केलेले कर्बद्दार व जामिनदारांकडून शीमान हाजास्मिण प्रवानात निमिटंड यांन देव असलेली खाली तक्त्यात नमुदा स्क्रम वसुलीकरिता खाली दिलेल्या तपीखालानुसार ई-लिलावा आधारावर जासे आहे जोबे आहे, जासे आहे जो आहे आणि जासे जोबे आहे या तत्यावर २३ ऑक्टोबर, २०२४ रोजी दु.१२.३०वा. ते दु.०१.३०वा. पर्वत विक्री केली जाईल. कर्जदार, जामिनदार, ताराणकर्ता, देव रक्कम, स्थावर मालमत्तेचे लघु वर्णन व ज्ञात अधिभार, ताबा प्रकार, आरक्षित मुल्य व इसारा रक्कम आणि वाहिब मुल्याचे तपशील खालीलप्रमाणे:

१) श्री भार्म पुजारानी थी. गुमा ) श्री. धर्मजय गुमा सर्वाचा पत्ता: कर्नट ळ. ७०७, आपवहीवाय हर्बटाइज मार्मिना, जीमीमी हालकेश रोडजबळ, तर्वाच पत्ता: कर्नट ळ. ७००, आपवहीवाय हर्बटाइज मार्मिना, जीमीमी हालकेश रोडजबळ, तर्वाच प्रता: कर्नट ळ. ७००, आपवहीवाय हर्बटाइज मार्मिना, जीमीमी हालकेश रोडजबळ, तर्वाच प्रता: कर्नट ळ. ७००, अपवहीव क्षेत्र कर्नट ळ. तर्वाच प्रता: कर्नट ळ. ७००, आपवहीवाय हर्ब्दाइज मार्मिना, जीमीमी हर्नाकेश रोडजबळ, तर्वाच जिल्लाक जार्मका कर्मट ळ. तर्वाच प्रता: कर्नट च्याच प्रतास व्यवच्या कर्मिना, जीमीमी हर्नाकेश रोडजबळ, तर्वाच प्रतास प्रतास कर्मट क्ष्मा प्रतास: विन टेन, रसाई आशिवांव कर्मिना, मार्निन प्रतास प्रतास मार्गिन हर्मा प्रतास मार्गिन ह	कर्जदार/सह–कर्जदार/जामिनदार/	१३(२) मागणी सूचना तारीख	आरक्षित मुल्य (रु.)	इसारा रक्कम	लिलावाची	संपर्क व्यक्ती व
	तारणकर्ताचे नाव	व रक्कम	व बोली वाढविणे	ठेव (इरठे) तपशील	तारीख व वेळ	निरीक्षण तारीख
११ सप्टेंबर, २०२४ – सांकेतिक तावा  ज्ञात अधिभार अज्ञात व्याजास, ज्ञाप करावरा, पे पुढील व्याजास, ज्ञाप करावरा, प्रात्माव करावरा, पुढील व्याजास, ज्ञाप करावरा, प्रात्माव करावरा, प्राप्त कर	२) औ. धर्मवय गुमा धर्मचा चर्गाः फर्नट ऊ. ७०७, आयवहीयाय एवटाइन गार्डनिम्स, जीसीसी हात्रकेम गोडनवळ, चित्रा तोड पुर्व-२०१२०, आयर्डिट ऊ.टीर- २००३. सुसरा चर्गाः वी-१२, साई आतिवादं कर्महिसादि, जीप. तेड, विकाय पंजाब हॉटल समार, पाईटर पुर्व-२०११२०. दूसरा पत्ताः वि.च. १२, २२वा भजना, सेटिया इम्पेरिक्ट अंकेट्यु, टाईम्स ऑफ इंडिया हाइक समार, पहिच्च पूर्व-१००१७. गुंबई-२००१७.	०६,ण-,२०२४ ६,००,०८,२०४८ होते हेव कर्षे छाते क्र. एसटीपुणव्यक्तीसम्पर्शाय ००००२४८ व एसवीटीपुणव्यक्तिसम्पर्शाय ००००२४ कंगतंत्र राक्ष ७,१८,९५,१२४/- (क्रप्ये अत्रता लाख पंच्याण्यक् ह्यास साहाते लेकिस एक्षा) आणि इ.७,४१,९०४/- (स्पर्ये अत्रतास्त लाख एक्षोणीस इज्ञार साहाते साव्यक्ति साव्यक्तिसम् इज्ञार साहाते साव्यक्ति साव्यक्तिसम् ६० दिक्कांच्या आज स्तरादोन पुर्वति व्यवसायत्र जमा करावी	(अस्ये एक कोटी चाळीस नवांब पत्थाण्यव हवार फक्त) बोली वार्डायें क. १,0,000/- आणि स्यार रोक्स (इस्टे) (क.) क.१५,0,१00/- एउस्पे चीटा वाख नक हवार शंकर फक्त) इस्टे सारद करण्याची असिम तारीख २२ ऑक्टोचर, २०१४ खेळ: स.१०,00 ते सार्य-५,00	केलेल्या खाते तपशिला मुसार आरटीजीएस। पर्नाइणस्टी स्वरुपात जाग करावी. वेक नाव: अविसस बीक निमिटेड, शाखा: वांद्रे- कुला कॉप्प्टलेक्स, मुंबई. बैंक खाते क्र.: चालु खाते क्र.: १११०२००४५६५७५६३३ आयपप्फाएसनी कोड:	ऑक्टोबर, २०२४ वेळ: दु.१२.३० ते	९७६९६२१०१० अशफाक पत्का ९८३३०१७२२१ निरीक्षण तारीख: ०५.१०.२०२४ वेळ: बु.१२.०० ते

अपार्टमेंट क्र.टी२–२२०३, बिंग टी–२, २२वा मजला, सेठिया इम्पेरियल ॲव्हेन्यू म्हणून ज्ञात इमारत, जमीन सीटीएस क्र.९ए(भाग), ९ए/१ ते ५७, सर्व्हे क्र.१३६१ (भाग), १२८/१३ ते २२, सब्हें क्र.२१४(भाग), गाब मालाड, तालुका बोरिवली, रेग कार्पेट क्षेत्र ५२.८६ ची.मी. अर्वात ५६९ ची.फु., नॉल्गी जिल्हा मुंबई शहर व मुंबई उपनगर, मालाड पुर्व, मुंबई-४०००९७ वेबील जागेचे सर्व भाग व खंड आणि चतुसिमा: पुर्व: पश्चिम दुतगती महामार्ग; पश्चिम: सीटीएस क्र.८, सीटीएस क्र.१२८बी आणि १२८(भाग); उत्तर: वाढवण गावाची हद; दक्षिण: सीटीएस क्र.१२८(भाग).

कोणतेही कारण न दर्शविता काही किंवा सर्व बोली नाकारण्याचा अधिकार प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडे राखून आहे. कोणतीही कारणे न देता कोणतीही किंवा सर्व बोली नाकारण्याचा अधिकार प्राधिकृत अधिकारी राखुर ठेवतो. लिलावाच्चा अटी व शतींशी संबंधित तर्पशिलांसाठी आणि निविदा सादर करण्याच्या जागेसाठी / बोली फॉर्म मिळविण्यासाठी / निविदा उपङ्ण्यासाठी आणि लिलाव प्रक्रियेसाठी, कृपया वेबसाइटला भेट छा, कृपया वेबसाइट पत्त्यावर श्रीराम हाउसिंग फायनान्स लिमिटेडच्या वेबसाइट http://shriramhousing.in/e-auction-Residential ला भेट छा.

ऑनलाइन लिलाव वेबसाइट https://www.bankeauctions.com वर आमच्या लिलाव एजन्सी सी? इंडिया प्रा.लि., पत्ता: प्लॉट क्र.६८, ३ग मजला, सेक्टर-४४, गुरुग्राम-१२२००३, इरियाणा येथे आयोजित केला जाईल. कोणत्याही सहाय्यासाठी, तुन्ही ईमेल आयडी tn@c1indla.com, support@bankeauctions.com वर ईमेल लिह् शकता.

टिप: कृपया लक्षात ठेवा की सुरक्षित धनको सर्व कर्जदार/जामीनदार/तारणकर्त्यांना स्पीड/नॉदणीकृत पोस्टाने विक्री सूचना जारी करणार आहे. जर ते कोणत्याही पक्षाकडून प्राप्त झाले नाही तर, विक्री नोटीसचे हे प्रकाशन सेवा पर्यायी पद्धती म्हणून मानले जाऊ शकते.

सरफायसी कायदा २००२ च्या नियम ८(६) अन्वये वैधानिक ३० दिवसांची विक्री सूचना:

कर्जदार/जामीनदार/तारणकरपौना लिलावापूर्वी, अर्थात २३.१०.२०२४ पूर्वी वर नमुद केल्याप्रमाणे सक्रम आणि अद्यायावत व्याज आणि सहाय्यक खर्च देण्यास सुचित ककेले जाते, असे न केल्यास मालमत्तेची लिलाव/विक्री केली जाईल आणि शिक्षक देय असल्यास व्याज आणि खर्चासह यसुल केली जाईल.

ठिकाण: मुंबई सही/- प्राधिकृत अधिकारी दिनांक: १४.०९.२०२४ श्रीराम हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड



Technocraft Industries (India) Limited
Corporte Identification Number (CRI): 1281720MH1982PCL058292
Technocraft Hoses, 4-25, Sead No., 03, MOC Insulsatel States, Andrein (East, Mumbai - 400093, brassistin, India, Telaphose: +91-22-4098 22202240); Fax: +91-22-4098 2200:
Temai: Insulsation/Enginezationup.com. Website: www.leptorgationup.com Registered Office: Technocoatt House, A-25. Road No. us. more and the Company House A-25. Road No. us. more and the Company House A-25. Road No. us. more and the Company House A-25. Road No. us. more and the Company House A-25. Road No. us. more and the Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Company Secretary & Complance Officer Contact Person: Mr. Neeraj Rai, Company Secretary & Co

This post-buyback-public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made in compliance with Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 as ammended from time from "ESEB Buyback Regulations," This Post Buyback Public Announcement shade the minute from "ESEB Buyback Regulations," This Publishment of 1,0024 published Announcement shade as a few of the Shareholder shade as a mentioned below.

Section of the Equity Shares accepted shade as Section of the Equity Shares accepted shade as Section of the Shareholder sharehold

## THE BUYBACK

scribed to them in the Public Amountament and the Latins or Uniform.

THE BUYDAG.

1. Technocart Industries (India) Limited ("Company") had amounced a buydack of 2,88,889 (Not Latins Eighty-limited (India) Limited ("Company") had amounced a buydack of 2,88,889 (Not Latins Eighty-limited (India) Limited (India) Limite

## DETAILS OF BUYBACK

UP INLES OF OF DISHOR.

The total number of Equity Shares bought back by the Company in the Boyback were 2.88.889 (Two Lakts Eighty-Eight Thousand Eight Hunned and Eighty-Hunn) at the price of IMPL 4.500-4 findian Rupees Four Thousand and Piet Hunned Only per Equity Share.

Thousand and Piet Hunned Only per Equity Share.

The total amount utilized in the Boyback is IMPL 300.00,500-4 findian Rupees One Hundred Thirty Crores and Prev Hunned Only Exclaim plate reasonable onto 50.500-4 findian Rupees One Hundred Thirty Crores and Prev Hunned Only Josephing the transaction 50.500-4 findian Rupees One Hundred Thirty Crores and Prev Hunned Only Josephing Thousand Shares Andrew Shares An

The manuses using resultant general manuscriptors (2.5). The Registrant for Beylanck, Link Beiland half before Limited, consistent a total of 1.17.506 valid bids for 21.0.231 Equity Stures in response to the Buybuck; which is approximately 7.28 times the maximum number of Equity Stures proposed to be bought back. The details of valid bids received considered by the Registrant to the Buybuck are set out below.

Category of Shareholders	No. of Equity shares reserved in Buyback	No. of Valid Bids	Total Valid Equity Shares Validly Tendered	% Response
Reserved category for Small Shareholders	43,334	1,16,243	1,99,099	4.60
General category of other Eligible Shareholders	2,45,555	1,563	19,03,212	7,75
Total	2,88,889	1,17,806	21,02,311	7,28

T. A. Wall blobs were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the SEBI Blobback Regulations and the Letter of Office. The communication of acceptance/regical in accordance with the SEBI Blobback Regulations and the Letter of Office. The communication of acceptance/regical in active Stignack to the Blogbic Standardises, on Throation, Spelamioth 12.20 (by jurnal where the Regulation to the Supplication of the Supplication of

## 2024. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN:

Sr. No.	Name of the Shareholder	No. of Equity Shares accepted under Buyback	Equity Shares accepted as a % of of total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of total post Buyback Equity Share Capital of the Company#
1.	Sudarshankumar Saraf	69,800	24.16	0.31
2.	Shakuntalla Saraf	53,107	18,38	0.23
3.	Sharadkumar Madhoprasad Saraf HUF	22,654	7.84	0,10
4.	Navneet Kumar Saraf	14,515	5.02	0.06
5.	Abakkus Emerging Opportunities Fund-1	13,359	4.62	0,06
6.	Nidhi Saraf	5,581	1.93	0.02
7.	Ashish Kumar Saraf	5,186	1.80	0.02
8.	Priyanka Ashish Saraf	5,136	1.78	0.02
9.	Sharadkumar Saraf	4,179	1,45	0,02
10.	Mahindra Manulife Manufacturing Fund	3,296	1.14	0.01
11.	HDFC Mutual Fund - HDFC Childrens Gift Fund	3,259	1.13	0.01

3.3. The shareholding pattern of the Company, prior to the Buyback (as of the Record Date, being August 27, 2024) and post the completion of the Buyback is as follows

	Pre-Buyback		Post-Buyback#		
Particulars	Number of Shares	% to the existing Equity Share Capital	Number of Shares	% to the Post Buyback Equity Share Capital	
Promoters and persons acting in concert (Collectively "the Promoter & Promoter Group")	1,71,32,736	74,61	1,69,46,826	74.75	
Foreign Investors (Including Non- Resident Indians, Fills)	7,42,011	3,23			
Financial Institutions/Banks & Mutual Funds promoted by Banks/ Institutions and Insurance Companies	ds promoted by Banks/		25.25		
Others (Public, Public Bodies Corporate etc.)	46,49,002	20.25			
Total	2,29,61,687	100,00	2.26,72,798	100,00	

#Subject to extinguishment of 2,88,889 Equity Shares of the Compan MANAGER TO THE BUYBACK



Systematic Corporate Services Limited
The Capital, A-Ming, 6th Floor, No. 603-406.
Philyho, 2-70, C-Block, Bardne-Nerb Complex (BKC),
Basinia (East), Marthe 4000 5th, Maharashira, India,
Telephone: -9 I-22-270-8 800.
Telephone: -9 I-22-270-8 800.
Collade Person. Ms., Jind Sangvi
Email, service/Systematiogroup or

DIRECTORS RESPONSIBILITY

In terms of Plaguidation 24(9)(a) of the Buykack Plaguidations, the Board of Directors of the Company accepts (a responsibility) for the information contained in this Post Buykack Public Announcement and confirms that this Post Buykack Public Announcement and confirms that this Post Buykack Public Announcement contains true, facult and material information and does not contain an interms of the resolution passed by the Buykack Committee on September 13, 2024.

## For and on behalf of the Board of Directors of Technocraft Industries (India) Limited

Sharad Kumar Sarat Chairman & Managing Director DIN: 00035843 Date: September 13, 2024 Place: Mumbai

Sudarshan Kumar Saraf Co-Chairman & Managing Director DIN: 00035799

केनरा बैंक Canara Bank 🔬 Rifting Synd icate

बोरिवली पश्चिम (१२६) श १ला मजला, जयभद्र किला, एस.च्ही.पी. रोड ( बोरिवली (पश्चिम) — "

## लॉकर भाडे थकबाकी व दंड रकमेकरिता मागणी सूचना व लॉकर उघडण्याची सूचना

(मांडेपारकाद्वारे सर्वेतर गांडे जमा न केल्याने कस्त्यार) पहुंदे वसं संबंधित व्यक्तिम आणि सर्वसामान्य जनतेला एक आहिर सूचना देण्या तेल आहे की, या सूचने आंतरित नाव आसलेला व्यक्तिने वी ई-सिंडिकेट वैके जातेसार सम्मीत्वार ज्याचित्र मान्य रुकेलेचा गातामध्ये पहुर्तित ते तांचित्री स्थापीय पानेता आहे. रहीं, रहीं, तांकर मांठक यांच सांच्या सामान्य देखा प्रावसिक्ष नोल्डीकर तांचादुत्वे संबंधित गातांची वैध्येतक पत्र /सूचन आमध्या वेक्ष्या जातेस्त्र प्रावस्था क्ष्याय स्थापात स्थाप्त सम्बद्धित स्थापित प्रकारी स्थापीय स्था

सार पारत जाकरणा परणवादा कथा कारणा गांत. तित नाह केतेचा सॉक्ट प्राथमने पेणों आणि त्यांच्या कार्यहोरीर चासांना विनंती आहे की, त्यांनी ही **अंतिम सुचना** महानू विचारत घ्या आ प्राथमक कारहारांस्त्र संखीया राज्येनी संबंध साथा आणि ही नोटेस प्रकारित झाल्यारासून १५ विवसांच्या आत संखंध प्राकाणी करकारी जाना क सेन न झाल्या प्रायमने पेणाऱ्या किया त्यांचे कारहेशीर प्रतिनेधी/सास यांच्या खर्चांचर आणि एकपेच जोवसंचर, कोरातीही पुटीस सूचना न है कोर्य न कियारणा

		ा वसवासा काराराच्या गाठवारकाचा वाक्।.			
अ.	लॉकर भाडधाने	पत्ता	लॉकर	शाखेचे नाव	देव थकवाकी व
क्र. घेणाऱ्याचे नाव		क्रमांक		अंतिम कार्यचलन	
3	मणिलाल यु.	४०३/ए, नंद धाम, एन.टी. रोड, चोरियली (परिषम)⊒१०००९२.	403	मुंबई, बोरिवली पश्चिम	₹.९ <b>,०८</b> ६/-
	शाह			(00१२६)	३ नपौसाठी कार्यस्त नाही
2	पी.के.	९०४, धूव धूव तारा कोहीसोलि, शिव वहुम रोड, अशोकवन,	હરદ	मुंबई, बोरिवली पश्चिम	চ.९,৹८६/-
	गोपालकृष्णन	बोरिवली (पुर्व).		(00१२६)	३ नपौसाठी कार्यस्त नाही
					सही/-
ठिका	ण: मुंबई				प्राधिकृत अधिकारी



VENTHYRABHA VENTHORES LIMITED
and skyle of Videnpetah Trading Umfadf as a Public Limited Company under the Compan
d by the Registrar of Companies, Maharashina al Mumbai on Jasusury 02, 1985. The named
for and seets Centificated of Loopcondon pursuant to the rame change was issued by the Re
or 19, 2018. For details of changes in name and registered office of our Company, see "G

formation on page 35.

Registered Office: Ground Floor, Averyna Heights, Survey Inc. 45-88, Behind Sarvoday Park, Nandrall Road,
Dombrell East, Thans — 421 201, Mahmarithis, Jahn Taf. +61 88008 14300

Control Pereirs: The Childenhaldral RB, Ray Hour Chopperly Screeting 1-6 Configuration Officer
Email: Cossoci-divriprofiberations-conn: Websites: www.indragothrosentros.com
Email: Cossoci-divriprofiberations-conn: Websites: www.indragothrosentros.com
COST PROMOTERS: Biff ESS JANNATHILAT: THAKKARI AND OFFIANDO CURRENT CARROLL ROAD REFORM PROVIDED TO THE
LIJIOTER E-COUNTY SHAREHOLDERS OF Websitered Assets Satters Loop of Consideration Configurations.

LUBBLE EQUITY SHARPHOLDERS OF INSTRUMENT NETURES LIMITED (UNIT COMPANY OF THE "ISSUER") ONLY IN ISSUE OF UP 10 TA 403, 122 FULLY POLDUP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF 67 10°E ACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF 732-PER RIGHTS EQUITY SHARES (INCLUDING A PREMIUM OF 722-PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO 7 449.02 LAKTS ON A RIGHTS EASIST OTHE ELIGIBLE EQUITY SHARPHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE ARTO OF 9 (NINE) RIGHTS EQUITY SHARPHOLDERS FOR EVERY 11 (ELEVEN) FULLY PAID-UP EQUITY SHARPHOLDERS RIGHTS EQUITY SHARPHOLDERS OF THE TEXT OF THE COUNTY SHARPHOLDERS OF THE PROPERTY OF THE SHAPPHOLDERS POR EVERY 11 (ELEVEN) FULLY PAID-UP EQUITY SHARPHOLDERS RIGHTS EQUITY SHARPHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS NO WENDESDAY, AUGUST 07, 2024 (THE "ISSUE"), FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 137 OF THE LETTER OF OFFER.

The Board of Directors of our Company thanks all investors for their response to the Issue, which general for subscription on Montey, August 19, 2004 and doesd on Monday, September 02, 2004 and the last date for On Marker Renunciation of Rights Entitlements was Tuesday, August 27, 2004, Out of the total 1,144 Applications for 41,46,657 Rights Equity Shares. Where rejected due to technical reasons as disclored in the Letter of Offer. The total number of Applications received were 952 for 350,616 Rights Equity Shares, which was 261,50% of the number of Rights Equity Shares. All contained with the Letter of Offer and the Basic of Alloriment on September 06, 2004 in consultation with BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange, and the Registrar to the Suus, the Rights Issues Committee of the Company on September 09, 2004 has approach dis additional to the Applications are the characteristic and the Applications are the characteristic applications have been less in Alloriment in vivous categories is as under

Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received	No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)	No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)
	Number	Number	Number	Number
Direct	2	791585	79650	871235
Non Renouncees	431	482790	35085	517875
Renouncees	111	14072	0	14072
Total	544	1288447	114735	1403182
2 Information regs	urding Applications received (inclu	no ASBA applications sees	issed):	

% Number % Nun n Renound

## INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHA ONLY IN THE DEMATERIALISATION FORM.

DISCLAIMER CHAUSE OF SEBI. It is be distinctly understood that the submission of the Letter of Offer to SEBI should not in any way deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by SEBI. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clauser of SEBI on page 132 of the Letter of Offer.

Cause of x Earl on page 12.2 or the Letter of Units.

DISCLAMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been deared or approved by BSE Limited, nor does it certify the concretions or completeness of any of the contents of the Letter of Offer for the init let of it in the Discharins clause of BSE as provided in "Other Regulatory and Sultanoy Discharges" Discharams Clause of BSE and page 315 of the Letter of Other Regulatory and Sultanoy Discharges - Discharams Clause of BSE and page 315 of the Letter of Other Regulatory and Sultanoy Discharges - Discharams Clause of BSE on page 315 of the Letter of Other Regulatory and Sultanoy Discharges - Discharams Clause of BSE on page 315 of the Letter of Other Regulatory and Sultanoy Discharges - Oscillatory BSE on page 315 of the Letter of Other Regulatory and Sultanoy Discharges - Oscillatory BSE on page 315 of the Letter of Other Regulatory and Sultanoy Discharges - Oscillatory BSE on page 315 of the Letter of Other Regulatory and Sultanoy Discharges - Oscillatory BSE on page 315 of the Letter of Other Regulatory and Sultanoy Discharges - Other BSE on page 315 of the Letter of Other Regulatory and Sultanoy Discharges - Oscillatory BSE on page 315 of the Letter of Other Regulatory and Sultanoy Discharges - Oscillatory BSE on page 315 of the Letter of Other Regulatory and Sultanoy Discharges - Oscillatory BSE on page 315 of the Discharge - Oscillatory BSE of the Sultanoy BSE of the Sult

responsing and balautory userstances - useculated values or to be: on page 133 of the Letter of Utilet.

\*\*BEEL Initiated ("the Exchange") has given vide its letter dated April 08, 2024, permits on this Company to use the Exchange's name in this Letter of Offer as the stock exchange on which this Company's securities are proposed to be listed. The Exchange has scrutinized this letter of offer for its limited internal purpose of deciding on the matter of granting the alloresaid permission to this.

- yeary. In Examining own an inity immuner.

  Warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of this letter of offer;

  Warrant that this Company's securities will be listed or will continue to be listed on the Exchange.or

  Take any responsibility for the financial or other soundness of this Company, its promoters, its manage softene or project of this Company.

and already or unsecompany;

and already person who desires according to the leaf of offer has been cleared or approved by the Schange. Every person who desires to apply for or otherwise acquires any securities of this Company may do so pursuan or independent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against the Exchange whatsevere by reason of any loss whom they be suffered by such person consequent to or in connection with such subscriptions equivalent in whether y reason of anything stated or omitted to be stated herein or for any other reason whatsevery includes otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the other of Office.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

rine Evului 1 sharkes OH I INE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

Wheresters may contact the Registrar or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matter. All ginevenoes relating to the ASBA process may be addressed to the Registra, with a copy to the SCSBs, signifying ful defalls school as name, address of the Applicant, contact numberels, Farall address of the schol first holder, following ful defalls school and address of the schol first holder, follow the Designated Branch of the SCSBs where the Application from or the plan prear application, as the case may be, made the School and the SCSBs where the Application of the CSBs where the Application of the SCSBs where the Application of the ASBA process, see Terms of the ScsBs.

<b>L!NK</b> Intime	VISHYPRABHA VENTURES LIMITED
LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED	COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
C-101, 1st Floor, 247 Park, LBS Marg, Surya Nagar,	VISHVPRABHA VENTURES LIMITED
Gandhi Nagar, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083,	Ground Floor, Avighna Heights, Survey No. 45-4B,
Maharashtra, India.	Behind Sarvoday Park, Nandivali Road, Dombivali East,
Telephone No.: +91 81081 14949;	Thane - 421 201,
Contact Person: Shanti Gopalkrishnan	Maharashtra, India Tel: +91 88508 14600
Email: vishvprabha.rightsissue@inkintime.co.in ;	Email: cosec@vishvprabhaventures.com
Website: www.linkintime.co.in	Website: www.vishvprabhaventures.com
Investor Grievance ID:	Contact Person: Rudrabahadur B.B. Bhujel
vishvprabha rightsissue@linkintime.co.in	
SEBI Registration No.: INR000004058	

For VISHVPRABHA VENTURES LIMITED

Place: Dombivali, Thane Date: 13.09.2024

Company Secretary & Complance Officer

Disclaimer: Our Company has filed a Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchange.
The Letter of Offer is available on the website of SEBI at <a href="https://www.sebi.gov/in.website">www.sebi.gov/in.website of the Stock Exchange where the Equity Streets as leted i.e. SES at <a href="https://www.sebi.gov/in.websites of the Company at <a href="https://www.sebi.gov/in.websites">www.sebi.gov/in.websites of the Security Securities of Securities

# Margin woes, valuations to weigh on P&G Hygiene

rom its highs over the past month, the stock of Procter & Gamble Hygiene and Healthcare fell 7 per cent before recovering this week.

A Gamble Hygiene and Healtheare fell 7 per cent before recovering this week.

The stock has been an underperformer over the last year and has raded flat over this period.

Muted margin performance in the June quarter has also led to a cut in earnings estimates by the brokerages. In addition, what could keep the stock under pressure in the near term are valuations that are in the expensive territory.

Going ahead, the Street will track the sales and margin trajectory. The sales growth in the quarter came in ahead of the estimates in a seasonally weak quarter due to lower sales of Vicks.

The 10 per cent sales growth in the quarter was a combination of product-price mix, premiumisation, and growth rate over the past five years is 8 per cent.

For the full year (ending in June), the company reported a 7 per cent increase in sales to 44,192 crore.

The company highlighted that the growth sealers of the sile with the growth was achieved despite a continually was achieved despite a continually challenging operating

14,192 crore.

The company highlighted that the growth was achieved despite a continually heallenging operating and competitive environment.

The gains over the year-ago quarter was on the back of innovation, premiumisation, which helped achieve category beating growth in the feminine hygiene category.

One-time tax related issues in the current as well as the base period has dented the bottom line, which came in at \$675 crore. This was flat over the year-ago period. Even as sales were better than expected, the company's performance slipped on the margin front. While the gross margins expanded by 160 basis points year-on-year (Y-o-Y), it fell sharply by 710 basis points quarter-on-quarter

on-year (Yo-2'), it fell sharply by 710 basis points quarter on-quarter (Q--Q) to 59.2 cf. This was lower than the 65 per pany is a long term core holding



## **MUTED PERFORMANCE**

Procter & Gamble Hygiene & Healthcare



cent plus number the Street was working with.

The rise in advertising, employees and other expenses also weighed on the operating profit margins that came in at 14.1 per cent.

Mottlal Oswal Research highlights that the margin contraction of 1,080 basis points Y-o-Y and 1,160 basis points Q-o-Q was the lowest in 12 quarters. The brokerage has cut earnings by 6-9 per cent for the next two years.

given robust growth potential in the feminine hygiene segment (65-68 per cent mix of FY24 sales) and the per cent mix of FY24 sales) and the potential for market share gains, added by strategic initiatives, including the fortification of significant market advantages. There is potential for higher margin gains from the long-term trend of premiumisation in the feminine hygiene segment. The analysts, however, have a neutral "rating, given the expensive valuations at 62 times the FY25 earnings.

valuations at 62 times the FY25 carnings.

Nirmal Bang Research has an accumulate rating. The brokerage awaits developments on the strategy front under the new CEO. This is on the back of extremely high advertising levels and whether the same strategy will be followed in pursuit of taking top line growth back to double digits in the subsequent quarters.

back to doubte tiggs in the suc-sequent quarters.

"While the 5-year sales growth is improving, it is still some way off the strong double-digit growth that it reported in the pre-Covid and high inflation phase," said Krishnan Sambamoorthy and Sunny Bhadra Chimoil Bany Beagard.

They maintain an 'accumulate rating as valuation seems fair at 53 times FY26 earnings.



## Consider benefits, costs before agreeing to policy splitting

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Irdai) recently issued a master circular stating that policies should only be split at the customer's request and with their consent. No additional fees, charges, or commissions should be commissions should be imposed if a policy is split without obtaining the cus-tomer's consent.

### What is splitting?

What is splitting?
Customers can choose to purchase a single insurance policy for a certain sum assured, with a specified tenure and benefits. Alternatively, they can buy multiple policies that cumulatively provide the same coverage and have the same features. Buying several similar policies at one go is called policy splitting. While splitting is common in life insurance, it is sometimes happens in health sometimes happens in health insurance as well.

"A customer who plans to buy a cover of, say, \$1 crore,

may be advised by an agent to split it across multiple, say, four policies of ₹25 lakh each," says Abhishek Kumar, Sebi-registered investment advisor (RIA) and founder, SahajMoney.com.

## Pitfalls of splitting

Insurers typically offer discounts on premium for pur-chasing a policy with a higher

chasing a policy with a higher sum assured.

"Splitting can result in losing the benefit of a larger policy, which is a better rate, with a higher discount. A customer may end up paying more for split policies," says Kapil Mehta, co-Founder, SecureNow Insurance Broker. Sometimes, customers buy multiple traditional policies without paying heed to their payment capacity and default on paying the premium of one or two.

"Customers have to pay a surrender charge in such a see-nario," says Shilpa Arora, cofounder and chief operating officer, Insurance Samadhan.

## **BEWARE OF TAX** MYTHS ABOUT SPLIT POLICIES

- Many buyers believe lower premiums on split policies will help them enjoy tax benefits
- ■That is not true as the latest tax laws consider aggregate premiums paid each year
- In case of non-Ulip policies bought on or after April 1, 2023, tax exemption under Section 10(10D) is available if the aggregate premium of all policies during the year is less than ₹5 lakh
- For Ulips bought on or after February 1, 2021, if the aggregate annual premium exceeds ₹2.5 lakh in a financial year, the maturity proceeds will be taxable

### Sometimes, it can be beneficial

If a customer has multiple smaller term policies, instead of one large one, she can close down each of them gradually down each of them gradually as her insurance needs decline. "As their wealth grows, investors may feel overinsured and may wish to stop paying the premiums of some term policies. Splitting gives them the flexibility to continue some policies and give up others," says Vishal Dhawan, founder and chief executive officer (CEO) Plan executive officer (CEO), Plan Ahead Wealth Advisors. A customer may have multiple nominees and may not want them to know about the existence of each other. "In such a scenario, the customer may buy two separate policies and name one the nominee for each," says Karthik each," says Karthik Chakrapani, chief business officer (CBO), Pramerica Life Insurance. He adds that it is also okay to split if you want the benefits in two different forms, say, as income from one policy and as endowment from the other.

## Why agents push for it

Why agents push to rt
One reason for splitting is that
it sometimes allows agents to
earn higher commissions.
Additionally, advisors encourage splitting to meet their targets. "Insurance advisors' targets are often linked to the
number of policies sold,
besides premium," says Arora.

## To split or not to split?

Splitting must result in tangible benefits for the customer, otherwise it will only mean more work for them in maintaining the policy and for their nominees in getting the death benefit from multiple policies.

benefit from multiple policies. According to Arox, the return from a single (investment-cum-insurance) larger policy is better than from multiple split policies. If an agent splits without informing the customer, it amounts to misselling, according to Irdai. "When splitting is done without the consent of the customer they expend to a contract between the proper they expend to a contract they are at a refund of tomer, they can get a refund of premium from the insurer and reapply for the product they want," says Λrora.

## Want to make changes to your EPFO account? Here's how to do it

Provident Fund
Organisation (EPFO) has
set up a process to make
corrections to Universal
Account Number (UAN)
profiles to make employee
records accurate and prevent fraud. Here's how
you can make these
changes.

Read full report here: mybs.in/2dYujjQ

Members can update their name, gender, date of birth, father's/ mother's name, marital status, date of joining (an organisation), reason for leaving, date of leaving, nationality, and Aadhaar number.

All correction requests need to be

## supported by relevant govern-

supported by relevant govern-ment-issued documents. For minor corrections, at least two documents from the specified lists are required. For major one at least three documents would be necessary.

Sudarshankumar Saraf

Abakkus Emerging Opportunities Fund-1

Shakuntala Saraf \_\_\_\_ oarat Sharadkumar Madhoprasad Sara HUF Navneet Kumar Saraf

Nidhi Saraf

Process for submitting changes You can submit a joint declaration request for corrections through the Member e-Sewa portal. But corrections can only be made for EPF accounts managed by your current employer. Employers are not authorised to modify details of EPF accounts from previous employer. Additionally, there is a limit on the number of times personal information can be updated.

0.06

0.02

% to the Post

# 50 years of converting news into economic intelligence.



businessstandard X bsindia O business.standard

business-standard.com

with Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of Initial (Bys-Back of Securities) Regulations, 2019 as amminded from time for time (SEB Baryhade Regulations). This Set Shyakask Public Amouncement should be read in continued on with the Public Amouncement dated August 14, 2024, published on August 15, 2024 (Public Amouncement), and applicated on September 10, 2024 or 10 feet and offer dated language 12, 2024 ("Letter of Offers") and Offer Opening Advertisement (higher public and September 10, 2024 or (Offer and September 11, 2024 or (Offer and September 10, 2024 or (Offer an

2. Declinator or Great Policy Shares bought back by the Company in the Buyback were 2,88,889 (Two Lakes Eighty-Eight Thousand Eight Hundred and Eighty-Rivel) at the price of IRR 4,500<sup>1</sup> (findin Rupees Four Thousand and Pire Hundred Only) per Eighty Share.
2. The total amount utilized in the Buyback is IRR 13,000,00,500<sup>1</sup> (findin Rupees One Hundred Thirty Crares and Five Hundred Only) per outlighted that section oss.
2.3. The Registrar to the Buyback. Link inflien India Pireta Limited, considered a total of 1,17,806 valid lobis crace 170,231 Teaply Thases in response to the Byyback. Which is approximately 7,28 times the maximum number of Equity Shares proposed to be buyback. Which is approximately 7,28 times the maximum number of Equity Shares proposed to be buyback. The details of valid bids received/considered by the Registrar to the Buyback are stort below.

Category of Shareholders	No. of Equity shares reserved in Buyback	No. of Valid Bids	Total Valid Equity Shares Validly Tendered	% Response
Reserved category for Small Shareholders	43,334	1,16,243	1,99,099	4.60
General category of other Eligible Shareholders	2,45,555	1,563	19,03,212	7.75
Total	2,88,889	1,17,806	21,02,311	7.28

(through physical indiration where email fel is not available).

The settlement of all valid belts was completed by the Indian Clearing Corporation Intellect (Clearing Corporation). The Corporation of Intellect (Clearing Corporation) in the Indiana State (Indiana State (India

CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN:

Particulars	Pre-Buyback	Post Buyback
Authorised Share Capital	Rs. 40,00,00,000 (4,00,00,000 Equity Shares)	Rs. 40,00,00,000 (4,00,00,000 Equity Shares)
Issued Subscribed and Paid-up Equity Capital	Rs. 22,96,16,870 (2,29,61,687 Equity Shares)	Rs. 22,67,27,980 (2,26,72,798 Equity Shares)#

Technocraft Industries (India) Limited
Corporate Identification Number (CIII): L281/200MH992PL00892S2
Technocraft House, A-25 Road No. 03, MIDC Industrial Estat, Andrier (East), Mumbai - 400093, barashtra, India. Telephone: +91-92-4098 222022340; Fax: +91-92-4098 2200; Email: investor@charcocraftproup.com: Webstle: www.technocraftproup.com.

been bought back under the Buyback are as mentioned belo

14,515

5,581

Pre-Bu

7,42,011 4,37,938

1.91

3.3. The shareholding pattern of the Company, prior to the Buyback (as of the Re

DETAILS OF BUYBACK

extinguishment of 2,88,889 Equity Shares accepted under the Buyback Offer is currently under process will be completed in accordance with the SEBI Buyback Regulations on or before Tuesday September 24.

1,69,46,826

2,26,72,798

DIRECTORS RESPONSIBILITY

SYSTEMATIX GROUP
Investments Re-defined

Others (Public, Public Bodies Corporate etc.)

UNIECTURE ASSYMMENT.

In terms of Regulation 24 (2014) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this Post Buyback Nublic Announcement called more than the process of the Post Buyback Nublic Announcement called more than 40 confirms that this Post Buyback Nublic Announcement called more than 40 confirms that the process of the Post Buyback Nublic Announcement is issued under the authority of the Board and in them of the resolution passed by the Buyback Committee or September 13, 2024.

For and on behalf of the Board of Directors of Technocraft Industries (India) Limited